



## प्रेसनोट थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा मोबाइल की दुकान से चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 01 एल0ई0डी0 टीवी, 16 कीपैड मोबाइल व 9380/- रुपये बरामद...

दिनांक 14.04.2021 को वादी संजय खान पुत्र ब्रह्मलाल निवासी दौरेठा नं0 01 संजय गाँधी इण्टर कॉलेज के पास थाना शाहगंज द्वारा थाना शाहगंज पर तहरीर दी गयी कि मैं दौरेठा नं0 01 में संजय गाँधी इण्टर कॉलेज के पास मोबाइल की दुकान चलाता हूँ। दिनांक 11.04.2021 को मैं अपनी दुकान रात्रि में बंद कर अपने घर चला गया। दिनांक 12.04.2021 को सुबह अपनी दुकान खोली तो देखा तो किन्ही अज्ञात चोरो द्वारा दुकान की दीवार तोडकर नये मोबाइल और नगदी 20,000 रू0 से 25,000 रू0 (मोबाइल की स्टोलमेन्ट के पैसे) , एल0ई0डी0 टीवी एवं अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 161/21 धारा 380/457/427 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार , पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी शाहगंज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 12.07.2021 को गठित पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति / वाहन की चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान मुखबिर खास सूचना मिली कि संजय गाँधी इण्टर कॉलेज के पास दौरेठा नं0 01 मे मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले 03 अभियुक्तगण इस समय चोरी का सामान लिये पथौली रोड पर सामान बेचने व कही जाने की फिराक में खडे है, यदि की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते है।

### ➤ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान पर पहुँचकर एक बारगी दविश देकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तगण के कब्जे से 9380 /- रू0 , 01 एल0ई0डी0 टीवी , 16 कीपैड मोबाइल बरामद हुये।

### ➤ पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 01. विकास बघेल पुत्र रवि बघेल निवासी अशोक शर्मा के मकान मे किराये पर दौरेठा नं0 01 मुरली बिहार थाना शाहगंज जनपद आगरा 02. रवि पुत्र सुभाष जाट निवासी ग्राम सरसा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा 03. अनेक सिंह पुत्र मुकेश सिंह निवासी सरसा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा बताया। बरामद सामाने के बारे में पूछताछ करने पर बताया कि



दिनांक 11.04.2021 को हम लोगो ने दौरेठा नं0 01 शाहगंज जनपद आगरा में संजय गाँधी इण्टर कॉलेज के पास स्थित दुकान की दीवार को तोडकर सामान की चोरी की थी ये सामान उसी चोरी से सम्बन्धित है । आज हम लोग इस सामान को बेचने के लिये जा रहे थे ।

### ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. विकास बघेल पुत्र रवि बघेल निवासी अशोक शर्मा के मकान मे किराये पर दौरेठा नं0 01 मुरली बिहार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
02. रवि पुत्र सुभाष जाट निवासी ग्राम सरसा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
03. अनेक सिंह पुत्र मुकेश सिंह निवासी सरसा थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

### ➤ बरामदगी का विवरण:-

01. 9380/- रू0 बरामद हुये ।
02. 01 एल0ई0डी0 टीवी ।
03. 16 कीपैड मोबाइल ।

### ➤ आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 161/21 धारा 380/457/427/411 भा0द0वि0 थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

### ➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र सिंह राघव थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
03. है0का0 238 आदेश कुमार थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
04. का0 454 सत्यवीर सिंह थाना शाहगंज जनपद आगरा ।
05. का0 1725 बृजेश थाना शाहगंज जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।